



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

18 जुलाई 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक-देयताएं और आस्तियां *					
(₹ करोड़)					
मद	2024	2025		घट-बढ़	
	12 जुलाई	4 जुलाई	11 जुलाई	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
4. ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	16359	30956	20431	-10525	4071

* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि *								
मद	11 जुलाई 2025 तक		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल आरक्षित निधि	5978149	696672	2883	-3064	266008	28346	407528	29818
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5052566	588810	3381	-2477	201732	21252	161793	3340
1.2 स्वर्ण	723791	84348	-737	-498	55629	6172	233746	25685
1.3 विशेष आहरण अधिकार	161343	18802	223	-66	6054	633	10048	691
1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति	40448	4711	16	-24	2593	288	1942	102

* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि और (डी) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के वित्तपोषण में रिज़र्व बैंक का योगदान शामिल नहीं है।

4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक-भारत में कारोबार						
(₹ करोड़)						
मद	27 जून 2025 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष -दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2 अन्यो के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमा राशियां	23425644	355861	810171	845043	2129379	2140247
	(23373017)				(2039982)	(2177017)
2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)		1.5	4.0	3.7	11.1	10.1
					(10.6)	(10.3)
2.1.1 मांग	3072874	213640	157824	374825	152756	471197
2.1.2 मीयादी	20352770	142221	652347	470217	1976623	1669050
2.2 उधार	850218	11756	-13481	-65030	289457	85757
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1059099	-46931	-7849	-2532	104706	129520
7 बैंक ऋण	18483098	169135	453865	239125	2502310	1597069
	(18088612)				(2002080)	(1702814)
7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	2.8	1.3	17.4	9.5
					(13.9)	(10.4)
7 क.1 खाद्य ऋण	64389	-3217	10823	27858	5997	30485
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18418709	172352	443042	211268	2496313	1566584

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़े में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत												
(₹ करोड़)												
मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	31 मार्च	27 जून	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27227143	28177467	334673	1.2	870090	3.5	950324	3.5	2276960	9.7	2475759	9.6
	(27286589)	(28230094)	(333520)	(1.2)			(943504)	(3.5)			(2438989)	(9.5)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3722292	-22699	-0.6	35779	1.0	91540	2.5	211446	6.5	276237	8.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3215375	213499	7.1	159349	6.2	375353	13.2	155991	6.0	469139	17.1
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि	20643062	21131103	144020	0.7	673732	3.6	488041	2.4	1892437	10.8	1717453	8.8
	(20702508)	(21183730)	(142867)	(0.7)			(481221)	(2.3)			(1680683)	(8.6)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाराशि	113307	108697	-147	-0.1	1230	1.3	-4610	-4.1	17086	21.7	12931	13.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8463065	8473446	-112823	-1.3	-87875	-1.2	10381	0.1	233800	3.3	1049305	14.1
	(8510825)	(8520033)	(-112824)	(-1.3)			(9207)	(0.1)			(1030547)	(13.8)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1513361	-89202		-167071		5255		-194110		487219	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959	6960086	-23622	-0.3	79196	1.3	5126	0.1	427910	7.2	562086	8.8
	(7002720)	(7006672)	(-23623)	(-0.3)			(3952)	(0.1)			(543328)	(8.4)
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	18646762	18885784	170479	0.9	476617	2.9	239022	1.3	2025359	13.4	1737021	10.1
	(19068129)	(19280269)	(166510)	(0.9)			(212141)	(1.1)			(1631276)	(9.2)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	9029	-1234		-3484		-29216		5539		-1892	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516	18876754	171713	0.9	480101	2.9	268238	1.4	2019820	13.4	1738914	10.1
	(19029883)	(19271240)	(167744)	(0.9)			(241357)	(1.3)			(1633169)	(9.3)
नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।												

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन										
(₹ करोड़)										
तारीख	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधायें	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	प्रतिवर्ती रेपो	परिवर्ती दर रेपो	परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो	एमएसएफ़	एसडीएफ़		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
7 जुलाई 2025	-	-	-	-	1051	250865	-230	-	-	-250044
8 जुलाई 2025	-	-	-	-	1072	214021	-240	-	-	-213189
9 जुलाई 2025	-	-	-	97315	1081	136036	-186	-	-	-232456
10 जुलाई 2025	-	-	-	-	1078	124621	-45	-	-	-123588
11 जुलाई 2025	-	-	-	151633	1223	187091	365	-	-	-337136
12 जुलाई 2025	-	-	-	-	85	127893	-	-	-	-127808
13 जुलाई 2025	-	-	-	-	81	132452	-	-	-	-132371
एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।										